



TRADING CHART PATTERN

INCLUDES CANDLESTICK + BREAKOUT PATTERN'S

Akash Kundur

DISCLAIMER

THE INFORMATION PROVIDED IN THIS BOOK IS FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. IT IS NOT INTENDED TO BE A SOURCE OF FINANCIAL OR LEGAL ADVICE. MAKING ADJUSTMENTS TO A FINANCIAL STRATEGY OR PLAN SHOULD ONLY BE UNDERTAKEN AFTER CONSULTING WITH A PROFESSIONAL. THE PUBLISHER AND THE AUTHOR MAKE NO GUARANTEE OF FINANCIAL RESULTS OBTAINED BY USING THIS BOOK.

WE MAKE NO GUARANTEES AS TO THE ACCURATENESS, QUALITY, OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION AND WE SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INACCURACIES IN THE INFORMATION OR FOR ANY USER'S RELIANCE ON THE INFORMATION AS BEING APPROPRIATE FOR USER'S PERSONAL USE. INCLUDING WITHOUT LIMITATION SEEKING THE ADVICE OF A QUALIFIED PROFESSIONAL REGARDING ANY SPECIFIC FINANCIAL QUESTIONS A USER MAY HAVE WE ARE NOT A SECURITIES BROKER/DEALER OR AN INVESTMENT ADVISOR.

Title : Trading Chart Pattern Includes
Candlestick + Breakout Pattern's

Author : Akash Kundur

Self Published by

Akash Kundur

Address : 444, Somwar Peth, Pincode - 411011

Contact : 8805559494

Printed by

Laxmi Prints

Address : Prabhat Road, Deccan Gymkhana

411004

Contact : 9145507071

Edition : III

ISBN : 978-93-5759-929-0


Copyright © Akash Kundur 2022

LET'S LEARN VARIOUS CHART PATTERNS

DOUBLE TOP WITH CANDLESTICK CHART



जब कोई STOCK एक भाव के पास आकर दो बार SUPPORT लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके दोनों बार एक ही LEVEL से निचे गिरता है तो उसे DOUBLE TOP PATTERN कहते हैं, और फिर निचे आकर SUPPORT को BREAK करके निचे गिरता है तो ये संकेत देता है की अब STOCK का भाव निचे जाने वाला है.




DOUBLE TOP PATTERN

When an asset reaches a high price twice in a row with a slight decrease in price between the two highs, a double top is formed which looks like "M" Shape is an extremely bearish technical reversal pattern. It becomes conclusive when the asset's price breaks through a support level that is equal to the low point between the two previous highs.

DOUBLE BOTTOM WITH CANDLESTICK CHART



जब कोई STOCK एक भाव के पास आकर दो बार RESISTANCE लेकर निचे गिरता है और निचे जाकर दोनों बार एक ही LEVEL से ऊपर उठता है। तो उसे DOUBLE BOTTOM PATTERN कहते है, और फिर ऊपर आकर RESISTANCE को BREAK करके ऊपर निकलता है तो ये संकेत देता है की अब STOCK का भाव ऊपर जाने वाला है,




DOUBLE BOTTOM PATTERN

When an asset hits a low price twice in a row with some support in between, a double bottom is formed, which looks like "W" Shape is a very bullish technical reversal pattern. Once the asset's price crosses a resistance level equivalent to the high between the two prior lows, it is verified.

TRIPPLE TOP WITH CANDLESTICK CHART




जब कोई STOCK एक भाव के पास आकर तीन बार SUPPORT लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके तीनों बार एक ही LEVEL से निचे गिरता है तो उसे TRIPPLE TOP PATTERN कहते हैं, और फिर निचे आकर SUPPORT को BREAK करके निचे गिरता है तो ये संकेत देता है की अब STOCK का भाव निचे जाने वाला है.




TRIPPLE TOP PATTERN

When an asset reaches a high price three times in a row with a slight decrease in price between each high, a technical reversal pattern known as a "triple top" occurs. Once the asset's price drops below a support level that is equal to the low point between the three previous highs, it is verified.

HEAD AND SHOULDER WITH CANDLESTICK CHART



जब कोई STOCK हर बार जब गिरता है तो एक भाव के पास आकर SUPPORT लेकर ऊपर चला जाता है, और ऊपर तीन बार TOP बनता है उसमें से पहली और तीसरी बार जब ऊपर जाता है तो SIMILAR LEVEL के पास आकर निचे गिरता है, और दूसरी बार उससे थोड़ा ऊपर जाकर निचे गिरता है और ये इंसान के HEAD & SHOULDER जैसे दीखता है, तो ये संकेत देता है SUPPORT को BREAK करके निचे गिर सकता है.



HEAD & SHOULDER PATTERN

A head and shoulders pattern is a chart formation that looks like a baseline with three peaks, with the middle peak being the highest and the outer two peaks being similar in height. The breakout occurs when the asset breaks the support level, and the pattern is so named because it resembles the human head and shoulders shape.

INVERTED HEAD AND SHOULDER WITH CANDLESTICK CHART



जब कोई STOCK हरबार एक भाव के पास आकर RESISTANCE से निचे गिरता है, और निचे गिरने के बाद तीन बार निचे BOTTOM बनाता है उसमे से पहली और तीसरी बार SIMILAR LEVEL के आसपास आकर ऊपर चला जाता है और दूसरी बार थोड़ा ज्यादा निचे गिरके ऊपर आजाता है, तो इसे INVERTED HEAD SHOULDER कहा जाता है और ये संकेत देता है की अब ये RESISTANCE को BREAK करके ऊपर जा सकता है.




INVERSE HEAD & SHOULDER

Similar to the typical head and shoulders pattern but with the head and shoulders inverted, an inverse head and shoulders pattern is used to forecast downtrend reversals. The price reaches a low point before rising then it drops below the previous low point before rising once more. Finally, the price declines once more, but not as far as the second low point. The price moves upward and breaks resistance after the last trough is made.

RISING WEDGE WITH CANDLESTICK CHART



ये PATTERN मंदी को दर्शाता है, इसमें STOCK ऊपर की ओर जा रहा होता है ऊपर एक RESISTANCE TRENDLINE के पास जाकर भाव हरबार निचे गिरता है और निचे एक SUPPORT TRENDLINE से भाव ऊपर जाता है और इसमें VOLUME धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये संकेत देता है की ये SUPPORT को BREAK करके निचे गिर सकता है.




RISING WEDGE PATTERN

A technical chart pattern called the rising wedge can be used to spot potential trend reversals. The pattern appears as a price chart with an upward slope and two convergent trendlines. It is typically accompanied by a decline in trading volume, and it confirms a breakthrough after the support trendline breaks and moves downward.

FALLING WEDGE WITH CANDLESTICK CHART



ये PATTERN तेजी को दर्शाता है इसमें STOCK का भाव निचे गिर रहा होता है. निचे SUPPORT TRENDLINE से भाव SUPPORT लेकर हरबार ऊपर आ जाता है और ऊपर RESISTANCE TRENDLINE से भाव निचे गिर रहा होता है, इसमें VOLUME धीरेधीरे कम होता जाता है, ये संकेत देता है की अब ये RESISTANCE को BREAK करके STOCK ऊपर जा सकता है.




FALLING WEDGE PATTERN

When the market makes lower lows and lower highs with a contracting range, a chart pattern known as the falling wedge pattern develops. When this pattern is identified in a downward trend, it is regarded as a reversal pattern, and the breakout is confirmed when it crosses the resistance trendline and moves upward.

BULLISH RECTANGLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK ऊपर जा रहा होता है बादमे ये कुछ समय के लिए STOCK एक ही भाव के आसपास ऊपर निचे कर रहा होता है, एक BOX बना लेता है तो जैसे ही STOCK BOX के RESISTANCE को तोड़ के ऊपर उठ जाता है तो ये संकेत देता है की STOCK अब ऊपर जा सकता है,




BULLISH RECTANGLE

The bullish rectangle is a continuation pattern that develops when a price pauses during a strong up trend and momentarily bounces between two parallel levels before the trend continues. The breakout is confirmed as the price breaks through its resistance and moves upward.

BEARISH RECTANGLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK निचे जा रहा होता है बादमे ये कुछ समय के लिए STOCK एक ही भाव के आसपास ऊपर निचे कर रहा होता है, एक BOX बना लेता है तो जैसे ही STOCK BOX के SUPPORT को तोड़ के निचे चला जाता है, तो में संकेत देता है की STOCK अब निचे जा सकता है,




BEARISH RECTANGLE

The bearish rectangle is a continuation pattern that develops when a price pauses during a strong downtrend and momentarily bounces between two parallel levels before the trend continues. The breakout is confirmed as the price breaks through its support and moves downward.

BULLISH FLAG WITH CANDLESTICK CHART




इस PATTERN में STOCK ऊपर जा रहा होता और फिर ये सीधा एक FLAG के POLE के जैसे अचानक STOCK ऊपर जाने लगता है बादमे फिर इसमें थोड़ी गिरावट आने लगती है ये गिरावट झडे के FLAG जैसे दिखती है, और जैसे ही ये FLAG को BREAK करके ऊपर जाने लगता है ये संकेत देता है STOCK ऊपर जा सकता है,



BULLISH FLAG PATTERN

Stocks with strong upward trends usually show the bullish flag formations, which are seen as favorable continuation patterns. The reason they are called bull flags is that the pattern looks like a flag on a pole. When a breakout occurs from the upside of the flag, it is proven that the pole is the result of an upside increase in the chart and the flag is the result of a phase of consolidation.

BEARISH FLAG WITH CANDLESTICK CHART



BEARISH FLAG PATTERN


इस PATTERN में STOCK निचे जा रहा होता और फिर ये सीधा एक उलटे FLAG के POLE के जैसे अचानक STOCK निचे गिरने लगता है बादमे फिर इसमें थोड़ी तेजी आने लगती है ये तेजी झंडे के FLAG जैसे दिखती है। उलटा झंडा और जैसे ही ये FLAG को BREAK करके भाव निचे जाने लगता है. ये संकेत देता है STOCK निचे जा सकता है.

The bearish flag is the bull flag turned upside down. It has the same basic layout as the bull flag. An almost vertical panic price drop causes the flag pole to form as the bulls are dominated by the sellers. After the bounce, which has parallel upper and lower trendlines and creates the flag, the breakout is verified as the chart breaks through the lower trendline.

BULLISH SYMMETRICAL WITH CANDLESTICK CHART




इस PATTERN में STOCK ऊपर जा रहा होता है फिर बादमे STOCK एक TRIANGLE के आकार में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर निचे करने लगता है, धीरे धीरे ये SHRINK होने लगता है, ऊपर RESISTANCE TRENDLINE को BREAK करके जब STOCK ऊपर निकलता है तो ये संकेत देता है, अब STOCK फिरसे ऊपर जाने के लिए तैयार है..




BULLISH SYMMETRICAL TRIANGLE

A bullish symmetrical triangle is a bullish continuation chart pattern. Two trend lines that are symmetrical in relation to the horizontal line and are converging produce the pattern. A breakout will be confirmed after the chart breaks through the resistance and moves upward. The top line is a bearish trend line that acts as resistance.

BEARISH SYMMETRICAL WITH CANDLESTICK CHART




इस PATTERN में STOCK निचे जा रहा होता है फिर बादमे STOCK एक TRIANGLE के आकार में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर निचे करने लगता है, धीरे धीरे ये SHRINK होने लगता है. निचे SUPPORT TRENDLINE को BREAK करके जब STOCK निचे निकलता है, तो ये संकेत देता है की अब फिरसे STOCK निचे जाने के लिए तैयार है..




BEARISH SYMMETRICAL TRIANGLE

A bearish symmetrical triangle is a bearish continuation chart pattern. Two symmetrically convergent trend lines that are parallel to the horizontal line and create the pattern; the lower support line is a bullish trendline breakout confirmed after it breaks support and moves downward.

CUP & HANDLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK निचे जा रहा होता है और पहली बार काफी निचे तक गिरता है, फिर ऊपर उठता है तो एक भाव के आसपास आकर RESISTANCE के चलते निचे गिरता है और दूसरी बार थोड़ा सा ही गिरके ऊपर उठता है तो इसका आकार एक चाय के कप जैसे दीखता है, तो जब ये RESISTANCE BREAK करके ऊपर निकलता है तो ये संकेत देता है की अब ये ऊपर जा सकता है.




CUP & HANDLE PATTERN

Technically speaking, a "tea cup"-like price movement on a chart is followed by a downward moving price pattern is called a "cup and handle." A stock's second minor decline, or "handle," is intended to represent a buying opportunity. A breakout will be confirmed once it breaks through resistance and moves upward.

INVERTED CUP & HANDLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK ऊपर जा रहा होता है और पहली बार काफी ऊपर तक जाता है फिर निचे गिरता है तो एक भाव के आसपास आकर SUPPORT लेके फिरसे ऊपर जाता है और इसबार थोडासा ही ऊपर तक जाता है और फिर निचे गिरता है ये उलटे चाय के कप जैसे दीखता है.




INVERTED CUP & HANDLE PATTERN

The upside-down cup and handle created by the inverted Cup and Handle design. The pattern develops after a retracement from a swing low, just before a sell-off to the previous swing low, and it pauses because of underlying support. The shares then stalls with light upward pressure, resembling a bear flag, before collapsing below support, breakout confirmed once it breaks support.

ASCENDING TRIANGLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK हरबार एक भाव के पास आकर RESISTANCE के चलते निचे गिरता है, पर जब गिरता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है और ऊपर उठ जाता है, तो निचे एक TRENDLINE बन जाती है तो STOCK SHRINK होने लगता है फिर जिस भाग से STOCK इस TRIANGLE से बहार निकले उस दिशा में STOCK आगे बढ़ सकता है,




ASCENDING TRIANGLE

It is shaped like a right-angled triangle with a flat resistance and a trendline of higher lows; the resistance prevents the chart from moving further upward, and the higher lows demonstrate that there is more buying pressure now. The pattern clearly shows that the market moves higher as the higher lows are formed and move toward the resistance line. It is likely to break in any direction.

DESCENDING TRIANGLE WITH CANDLESTICK CHART



इस PATTERN में STOCK हरबार एक भाव के पास आकर SUPPORT के चलते ऊपर उठता है, पर जब ऊपर जाता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम ऊपर जाता है और निचे गिरता है, तो ऊपर एक TRENDLINE बन जाती है. तो STOCK SHRINK होने लगता है. फिर जिस भी तरफ से STOCK इस TRIANGLE से बहार निकले उस दिशा में STOCK आगे बढ़ सकता है.



DESCENDING TRIANGLE

It develops during a downtrend and predicts that trend will continue. Lower highs show that the selling pressure has increased. The pattern clearly indicates that the market is moving lower as the lower highs are formed and are moving toward the support line. It can break from any direction. The triangle was formed as a downward sloping triangle with support and a slope of lower highs support.

**LET'S LEARN ABOUT
CANDLESTICK
PATTERNS**

CANDLESTICK मतलब?

CANDLESTICK MARKET का मूड दर्शाता है, हर एक CANDLE मतलब तेजी और लाल CANDLE मतलब मंदी को दर्शाता है. RECTANGLE PART को बॉडी कहते हैं और पतली लाइन-उसमे से जाती है उसे SHADOW कहते हैं. SHADOW HIGH और LOW की रेंज को दर्शाता है और बॉडी OPEN और CLOSE को दर्शाता है..




WHAT IS CANDLESTICK ?

Candlestick represents the market's current sentiment. The rectangle part of a candle is called the body, and a thin line running through it is called the shadow or wick. During a trading session, the upper shadow displays the high price and the lower shadow displays the low price. Green candles represent strength/buying, and red candles represent weakness/selling.




HAMMER CANDLE

HAMMER PATTERN मंदी के बाद BOTTOM में दीखता है, इसकी BODY छोटी होती है और LOWER SHADOW थोड़ी बड़ी होती है ये एक हथोड़े के आकार का होता है इसलिए इसे HAMMER कहते हैं, ये बनने के बाद ये संकेत मिलता है की अब STOCK ऊपर जा सकता है.



HAMMER CANDLE


Hammer is a single candlestick pattern that appears at the bottom of a downtrend and signals a bullish reversal. the candle's body, which is located on the top side, should have a lower shadow that is twice as large as the body. There is little to no top shadow on this candle.



HAMMER CANDLESTICK IN LIVE CHART

PIERCING PATTERN

PATTERN दो CANDLES को मिलके बनता है ये मंदी के बाद BOTTOM में बनता है, पहला CANDLE लाल यानि BEARISH होता है और दूसरा हरा CANDLE GAP DOWN ओपन होता है और पिछले CANDLE के BODY के 50% ऊपर जाके CLOSE होता है, इससे भाव ऊपर जाने वाला है ऐसा संकेत मिलता है.




PIERCING PATTERN

A two-candlestick chart pattern called a "piercing pattern" that appears during a downtrend signals a bullish reversal. First candle is bearish, second candle opens with a gap down but closes above 50% of first candle, signalling the beginning of a bull market.




PIERCING PATTERN IN LIVE CHART




BULLISH ENGULFING PATTERN

ये PATTERN दो CANDLES को मिलके बनता है ये मंदी के बाद BOTTOM में बनता है, पहला CANDLE लाल यानि BEARISH होता है दूसरा CANDLE हरा यानि BULLISH बनता है और वो पहले वाले को पूरा ढक देता है इतना बड़ा होता है, इसके बाद अब STOCK ऊपर जाने वाला है ऐसा संकेत मिलता है,



BULLISH ENGULFING

Bullish Engulfing is a two-candlestick chart pattern that appears during a downtrend and indicates a bullish reversal. The second candle totally engulfs the first candle, engulfing being the technical term for covering the previous candle. The second candle is green, displaying a bullish sign.




BULLISH ENGULFING IN LIVE CHART



Sunrise

THE MORNING STAR

ये PATTERN तीन CANDLES को मिलके बनता है ये मंदी के बाद BOTTOM में बनता है, पहला CANDLE बड़ा लाल यानि मंदी होता है दूसरा CANDLE DOJI ये NEUTRAL माना जाता है और तीसरा हरा यानि तेजी को दर्शाता है, ये देखते ही अब STOCK ऊपर जा सकता है ऐसे संकेत मिलते हैं.



THE MORNING STAR

The morning star pattern is a three candlestick chart pattern that shows a bullish reversal when it appears during a downturn. It has three candles the first is bearish, second is doji which denotes a neutral market and the third is bullish indicating that the market is ready to move upward.




MORNING STAR IN LIVE CHART



THREE WHITE SOLDIERS

ये PATTERN तीन CANDLES को मिलके बनता है। और ये मंदी के बाद BOTTOM में बनता है, तीनों CANDLE बड़े और GREEN होते हैं जिनकी SHADOWS नहीं होती या फिर कम होती है, हर नया CANDLE पिछले CANDLE के RANGE में ही शुरू होता है और ऊपर जाके CLOSE होता है, ये तेजी का संकेत देता है इसका मतलब अब STOCK ऊपर जा सकता है.




THREE WHITE SOLDIERS

A three-candlestick chart pattern known as the "three white soldiers" appears during a downtrend and indicates a bullish reversal. It is made up of three bullish candles, each of which opens within the body of the previous candle.




BULLISH HARAMI

ये PATTERN दो CANDLE का मिलके बनता है और मंदी के बाद BOTTOM में बनता है, पहला CANDLE बड़ा लाल होता है और दूसरा छोटा होता है GREEN कलर में पर दूसरा CANDLE पहले CANDLE के RANGE के अंदर बनता है. अब STOCK ऊपर जाने वाला है ऐसा दर्शाता है.



BULLISH HARAMI

The bullish harami pattern is a two candlestick chart pattern that shows a bullish reversal when it appears during a downtrend. The first candle is a large red candle, and the second candle is a bullish little candle that forms within the previous candle's body's range. The first candle indicates a bearish trend, and the second green candle signals the beginning of a bullish trend.




BULLISH HARAMI IN LIVE CHART




INVERTED HAMMER

ये सिंगल CANDLE होता है जो उलटे हथोड़ा जैसे दीखता है इसकी BODY छोटी होती है और HIGHER SHADOW बड़ी होती है, ये मंदी के बाद BOTTOM में बनता है और ये संकेत देता है की STOCK का भाव ऊपर जा सकता है.



INVERTED HAMMER

The inverted hammer pattern, which is the opposite of the hammer pattern, occurs at the end of a downtrend and signals a bullish turn around. candle's body is located on the end or lower side and has a large upper shadow. The shadow of a candle should be twice as big as the body.




INVERTED HAMMER IN LIVE CHART



HANGING MAN PATTERN

ये सिंगल CANDLE होता है जो HAMMER जैसे दीखता है पर ये UPTREND के बाद TOP में बनता है इसलिए इसे HANGING MAN कहते हैं। इसकी BODY छोटी होती है और LOWER SHADOW बड़ी होती है, ये तेजी के बाद TOP में बनता है और ये संकेत देता है की अब STOCK का भाव निचे जा सकता है।




HANGING MAN PATTERN

When an uptrend comes to an end, a hanging man pattern appears, Indicates a bearish reversal. The candle's body is at upside and its long lower shadow should twice the size of the body. Since this candle has no or a very minor upper shadow it indicates market may collapse after this. This candle's design is known as the hanging man pattern because it resembles a hanging man.




HANGING MAN IN LIVE CHART




BEARISH ENGULFING PATTERN

ये PATTERN दो CANDLES का मिलकर बनता है और ये UPTREND के बाद TOP में बनता है. पहला हरा यानि BULLISH CANDLE और दूसरा लाल यानि BEARISH CANDLE और लाल CANDLE पिछलेवाली हरी CANDLE को पूरी तरीके से ढक देता है यानि पहले वाली से काफी बड़ा होता है, ये यह दर्शाता है की अभी मंदी आने वाली है STOCK निचे गिर सकता है.



BEARISH ENGULFING

A two-candlestick pattern known as a bearish engulfing pattern, which appears at the peak of an uptrend and indicates a bearish reversal. It is created by the formation of two candles, the first of which is green and the second is bearish red. When the first green candle is engulfed by the bearish red candle, it indicated that the bears were becoming more active and that a bear market is about to begin.




BEARISH ENGULFING IN LIVE CHART



Sunset


THE EVENING STAR

ये PATTERN तीन CANDLES का मिलकर बनता है। और ये UPTREND के बाद TOP में बनता है, पहला CANDLE हरा यानि BULLISH दूसरा DOJI यानि NEUTRAL और तीसरा लाल यानि BEARISH होता है, यह ये दर्शाता है की अब STOCK निचे गिर सकता है।



THE EVENING STAR

The multiple candlestick pattern known as the evening star appears at the peak of an uptrend and indicates a bearish reversal. consists of three candles: the first is bullish, the second is doji which represents neutral, and the third is red, which signals the beginning of a downtrend. First and third candles' true bodies should be entirely separate from the second candle.




THE EVENING STAR IN LIVE CHART



THREE BLACK CROWS

ये PATTERN तीन CANDLES का मिलकर बनता है और ये UPTREAND के बाद TOP में बनता है, तीनों CANDLE लाल यानि BEARISH होते हैं इनकी SHADOWS छोटी होती हैं या फिर नहीं होती हर नया CANDLE पहले वाले के BODY के RANGE में ही खुलता है, ये दर्शाता है की अब STOCK निचे गिर सकता है.




THREE BLACK CROWS

The three black crows pattern, which consists of multiple candles and appears at the peak of an uptrend, indicates a bearish reversal. It consists of three red candles, none of which has a long shadow, and each of which opens within the body of the previous candle.




BEARISH HARAMI

ये PATTERN दो CANDLES का मिलकर बनता है और ये UPTREND के बाद TOP में बनता है, पहला CANDLE हरा यानि BULLISH होता है और दूसरा लाल यानि BEARISH होता है, दूसरा CANDLE पहले CANDLE से छोटा होता है और पहले वाले के बॉडी के रेंज के अंदर ही OPEN और CLOSE होता है, ये दर्शाता है की अब STOCK निचे गिरने वाला है,



BEARISH HARAMI

A two candlestick pattern called a bearish harami, which appears after an uptrend and indicates a bearish reversal. It consists of two candles, the first of which is a small bearish red candle that forms within the range of the previous bullish green candle. It indicates that the market may be about to fall.




BEARISH HARAMI IN LIVE CHART



SHOOTING STAR PATTERN

ये PATTERN INVERTED HAMMER जैसे दीखता है पर ये UPTREND के बाद TOP में बनता है, इसलिए इसे SHOOTING STAR कहते हैं क्योंकि ये टूटते तारे जैसे दीखता है और ये दर्शाता है की अब STOCK निचे गिर सकता है.



SHOOTING STAR PATTERN

When a shooting star forms at the peak of an uptrend, it signals a bearish reversal. In this design, the body is on the lower side, while the upper shadow is long. It is the opposite of the candlestick pattern hanging man. it is formed when the starting and closing prices are close to one another.



DOJI PATTERN

इस PATTERN को NEUTRAL कहा जाता है, मतलब नहीं ये CANDLE BULLISH है और नहीं BEARISH है, इसमें बॉडी छोटी होती है और SHADOWS काफी बड़ी होती है.



DOJI PATTERN

When the opening and closing prices are almost equal, the candlestick pattern known as the "doji" appears. It has a very small body and a long shadow, and it occurs when buyers and sellers are fighting but neither side is capable of controlling the market.

TRADING PSYCHOLOGY TIPS

1 AVOID FOMO (FEAR OF MISSING OUT)

You Should Not Try To Catch Every Trade, Your Goal As A Trader Is Not To Catch Every Trade But To Focus On The Quality Trades Where The Risk Reward Ratio Is In Your Favour. Day Trader Dose'n't Means You Have To Trade Every Day, If There Is No Breakout / Signal Then Relax.

2 MOVE ON FROM BAD DAYS

Every Trader Has Bad Days Weeks And Months. Accept It,
Move On And Prepare For Next Trade

Successful Traders Overcome Adversity,

TRADING PSYCHOLOGY TIPS

3 DONT CARRY YESTERDAYS BAGGAGE

Every Day Start With Fresh Empty Mind With Clean Slate,
Don't Let One Trade Influence Another Trade Approach Every
Trade As If It's The Start Of The Day

4 DON'T DO OVER-TRADING

Are You Controlling Your Trading Or Trading Terminal Is
Controlling You.

Trading Can Be Addicting And Its Easy To Stucked Into
Stressful Trades, Focus On Work Life Balance & Make Sure You
Are Building Sustainable Habits.

THANK YOU !



DROPOUT ENGINEER



DROPOUTENGINEERS



DROPOUT ENGINEER
FAMILY